



COM 314

B.Com. VIth SEMESTER EXAMINATION, 2023-24

COMMERCE

(Auditing I)

(CBCS Mode)

AFFIX PRESCRIBED
RUBBER STAMP

Paper ID

(To be filled in the
OMR Sheet)

Date (तिथि) : _____

5458

अनुक्रमांक (अंकों में) :

Roll No. (In Figures) :

अनुक्रमांक (शब्दों में) :

Roll No. (In Words) :

Time : 1:30 Hrs.

समय : 1:30 घण्टे

Max. Marks : 75

अधिकतम अंक : 75

नोट : पुस्तिका में 50 प्रश्न दिये गये हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा।

Important Instructions :

1. The candidate will write his/her Roll Number only at the places provided for, i.e. on the cover page and on the OMR answer sheet at the end and nowhere else.
2. Immediately on receipt of the question booklet, the candidate should check up the booklet and ensure that it contains all the pages and that no question is missing. If the candidate finds any discrepancy in the question booklet, he/she should report the invigilator within 10 minutes of the issue of this booklet and a fresh question booklet without any discrepancy be obtained.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखेंगे जो इसके लिए दिये गये हैं, अर्थात् प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिये गये ओ०एम०आर० उत्तर पत्र पर, तथा अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे।
2. प्रश्न पुस्तिका मिलते ही अभ्यर्थी को जाँच करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। यदि कोई विसंगति है तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही कक्ष परिप्रेक्षक को सूचित करना चाहिए और बिना त्रुटि की दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लेना चाहिए।

1. When Double Entry System was invented ?
 - (A) 1444
 - (B) 1490
 - (C) 1494
 - (D) 1949
2. When the Chartered Accountant Act of India was made in-
 - (A) 1914
 - (B) 1949
 - (C) 1956
 - (D) 1960
3. When the audit of Company Accounts was made compulsory in India ?
 - (A) 1894
 - (B) 1914
 - (C) 1947
 - (D) 1952
4. Who can be Auditor of a company ?
 - (A) Commerce Graduate
 - (B) Law Graduate
 - (C) Cost Accountant
 - (D) None of these
5. Auditing is-
 - (A) An Art
 - (B) A Science
 - (C) Both
 - (D) None of these
1. दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ था?
 - (A) 1444
 - (B) 1490
 - (C) 1494
 - (D) 1949
2. भारत में चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट अधिनियम कब बनाया गया है ?
 - (A) 1914
 - (B) 1949
 - (C) 1956
 - (D) 1960
3. भारत में कम्पनी खातों का अंकेक्षण कब से अनिवार्य किया गया ?
 - (A) 1894
 - (B) 1914
 - (C) 1947
 - (D) 1952
4. एक कम्पनी का अंकेक्षक कौन हो सकता है ?
 - (A) वाणिज्य स्नातक
 - (B) विधि स्नातक
 - (C) लागत लेखाकार
 - (D) इनमें से कोई नहीं
5. अंकेक्षण है-
 - (A) एक कला
 - (B) एक विज्ञान
 - (C) दोनों
 - (D) इनमें से कोई नहीं

6. Which of the following is the function of Auditor ?
- (A) To examine the arithmetical accuracy of accounts
- (B) To detect and prevent the errors
- (C) To detect and prevent the frauds
- (D) All the above
7. Chartered Accountants are-
- (A) Amateur Auditor
- (B) Government Auditor
- (C) Professional Auditor
- (D) None of these
8. Technical knowledge of Auditing is-
- (A) Born
- (B) Acquired
- (C) Original
- (D) None of these
9. An auditor should not be-
- (A) Tactful
- (B) Honest
- (C) Suspicious
- (D) Patient
10. An auditor should have-
- (A) Tactfulness
- (B) Honesty
- (C) Morality
- (D) All the above
6. निम्नांकित में से कौन सा कार्य अंकेक्षक का है ?
- (A) खाते की गणितीय शुद्धता की जाँच करना
- (B) अशुद्धियों को ढूँढना एवं रोकना
- (C) कपट को ढूँढना एवं रोकना
- (D) उपरोक्त सभी
7. चार्टर्ड एकाउण्टेंट होते हैं-
- (A) अनिपुण अंकेक्षक
- (B) सरकारी अंकेक्षक
- (C) पेशेवर अंकेक्षक
- (D) इनमें से कोई नहीं
8. अंकेक्षण का तकनीकी ज्ञान होता है-
- (A) जन्मजात
- (B) उपाजित
- (C) मौलिक
- (D) इनमें से कोई नहीं
9. एक अंकेक्षक को नहीं होना चाहिए-
- (A) चतुर
- (B) ईमानदार
- (C) शंकालु
- (D) धैर्यवान
10. एक अंकेक्षक में होना चाहिए-
- (A) चतुराई
- (B) ईमानदारी
- (C) नैतिकता
- (D) उपरोक्त सभी

11. Verification of annual statement is-
- (A) Primary object of auditing
(B) Social object of auditing
(C) Subsidiary object of auditing
(D) None of these
12. Statutory audit is-
- (A) Compulsory
(B) Voluntary
(C) Optional
(D) None of these
13. The effect of auditor on employees by continuous audit-
- (A) Increases
(B) Decreases
(C) Remains Constant
(D) None of these
14. An auditor is-
- (A) As Watch Dog
(B) As Lion
(C) As Blood Hound
(D) As Street Dog
15. Interim audit is get done-
- (A) In the beginning of the year
(B) At the end of the year
(C) In the middle of the year
(D) None of these
11. वार्षिक विवरणों का सत्यापन करना है-
- (A) अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य
(B) अंकेक्षण का सामाजिक उद्देश्य
(C) अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य
(D) इनमें से कोई नहीं
12. वैधानिक अंकेक्षण होता है-
- (A) अनिवार्य
(B) ऐच्छिक
(C) वैकल्पिक
(D) इनमें से कोई नहीं
13. चालू अंकेक्षण से अंकेक्षक का प्रभाव कर्मचारियों के बीच-
- (A) बढ़ता है
(B) घटता है
(C) स्थिर रहता है
(D) इनमें से कोई नहीं
14. एक अंकेक्षक होता है-
- (A) हितप्रहरी की तरह
(B) शेर की तरह
(C) शिकारी कुत्ते की तरह
(D) लावारिस कुत्ते की तरह
15. अन्तरिम अंकेक्षण कराया जाता है-
- (A) वर्ष के प्रारम्भ में
(B) वर्ष के अन्त में
(C) वर्ष के मध्य में
(D) इनमें से कोई नहीं

16. Under B/S audit examination is done of-
- (A) Fixed Assets only
(B) Fixed Liabilities only
(C) All Assets and Liabilities
(D) None of these
17. Before the audit of a new Institution-
- (A) Scope is determined
(B) Nature of the Institution is studied
(C) Methods of Accounting are studied
(D) All the above
18. Audit Programme should be-
- (A) Written
(B) Verbal
(C) Brief
(D) None of these
19. By Routine Checking-
- (A) Expenses of business increase
(B) Expenses of business decrease
(C) Business expenses remains unaffected
(D) None of these
16. चिट्ठा अंकेक्षण में जाँच होती है-
- (A) केवल स्थायी सम्पत्तियों की
(B) केवल स्थायी दायित्वों की
(C) सभी सम्पत्तियों व दायित्वों की
(D) इनमें से कोई नहीं
17. किसी नयी संस्था के अंकेक्षण के पूर्व-
- (A) कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जाता है
(B) संस्था के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है
(C) लेखाकर्म की पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है
(D) उपरोक्त सभी
18. अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए-
- (A) लिखित
(B) मौखिक
(C) संक्षिप्त
(D) इनमें से कोई नहीं
19. नैत्यक जाँच से-
- (A) व्यवसाय का खर्च बढ़ता है
(B) व्यवसाय का खर्च घटता है
(C) व्यवसाय का खर्च अप्रभावित रहता है
(D) इनमें से कोई नहीं

20. Under Test Checking-
- (A) All books of accounts are examined
- (B) Specific books of accounts are examined
- (C) None of these
- (D) (A) and (B) Both
21. Verification and Valuation both-
- (A) Are the same things
- (B) Are separate things
- (C) Are complementary of each other
- (D) None of these
22. Under Verification-
- (A) Attention is paid on the materiality of assets and liabilities
- (B) Attention is paid on the originality of assets and liabilities
- (C) None of these
- (D) (A) and (B) Both
23. Which type of employees of the firm are appointed as internal auditor-
- (A) Who are related to books of accounts
- (B) Who are not related to books of accounts
- (C) Who are not related to books of accounts but versed in accounting and honest
- (D) None of these

20. परीक्षण जाँच के अन्तर्गत-
- (A) सभी लेखा पुस्तकों की जाँच होती है
- (B) खास-खास लेखा पुस्तकों की जाँच होती है
- (C) इनमें से कोई नहीं
- (D) (A) और (B) दोनों
21. सत्यापन तथा मूल्यांकन दोनों-
- (A) एक ही चीजें हैं
- (B) अलग-अलग चीजें हैं
- (C) एक दूसरे के पूरक हैं
- (D) इनमें से कोई नहीं
22. सत्यापन के अन्तर्गत-
- (A) सम्पत्तियों एवं दायित्वों की भौतिकता पर ध्यान दिया जाता है
- (B) सम्पत्तियों एवं दायित्वों की मौलिकता पर ध्यान दिया जाता है
- (C) इनमें से कोई नहीं
- (D) (A) और (B) दोनों
23. आन्तरिक अंकेक्षक के रूप में संस्था के कैसे कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है-
- (A) जो लेखा-पुस्तकों से सम्बन्धित होते हैं
- (B) जो लेखा-पुस्तकों से सम्बन्धित नहीं होते हैं
- (C) जो लेखा-पुस्तकों से सम्बन्धित नहीं होते किन्तु जो दक्ष एवं ईमानदार होते हैं
- (D) इनमें से कोई नहीं

24. Internal control includes-
- (A) Only Economic Control
 (B) Economic and Non-economic control
 (C) Economic, Non-economic and Administrative control
 (D) None of these
25. Which one of the following is correct-?
- (A) Auditing is the backbone of vouching
 (B) Vouching is the backbone of auditing
 (C) Vouching is the backbone of accounting
 (D) Auditing is the backbone of accounting
26. A voucher should contain-
- (A) Date
 (B) Amount
 (C) Signature
 (D) All the above
27. Which of the following is not floating asset ?
- (A) Prepaid Expenses
 (B) B/R
 (C) Goodwill
 (D) Stock
24. आन्तरिक नियन्त्रण में शामिल है-
- (A) केवल आर्थिक नियन्त्रण
 (B) आर्थिक एवं गैर-आर्थिक नियन्त्रण
 (C) आर्थिक, गैर-आर्थिक एवं प्रशासनिक नियन्त्रण
 (D) इनमें से कोई नहीं
25. निम्नांकित में कौन सही है-
- (A) अंकेक्षण प्रमाणन की रीढ़ की हड्डी है
 (B) प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है
 (C) प्रमाणन लेखांकन की रीढ़ की हड्डी है
 (D) अंकेक्षण लेखांकन की रीढ़ की हड्डी है
26. प्रमाणक में होना चाहिए-
- (A) तिथि
 (B) रकम
 (C) हस्ताक्षर
 (D) उपरोक्त सभी
27. निम्नांकित में कौन अस्थायी सम्पत्ति नहीं है?
- (A) पूर्वदत्त व्यय
 (B) प्राप्य बिल
 (C) ख्याति
 (D) रहतिया

28. Auditing begins, where-
- (A) Book keeping ends
(B) Accountancy ends
(C) Investigation ends
(D) None of these
29. Errors and frauds by an auditor-
- (A) Can be checked
(B) Can not be checked
(C) Can be checked, if the proprietor and the employees of the firm desire
(D) All the above
30. Audit which is done at the time of admission of a new partner is called-
- (A) Casual Audit
(B) Standard Audit
(C) Partial Audit
(D) None of these
31. Auditing refers to-
- (A) Preparation and checking of account
(B) Examination of accounts of business units only
(C) Examination of accounts of professional accountants
(D) Checking of vouchers
28. अंकेक्षण प्रारम्भ होता है, जहाँ-
- (A) पुस्तपालन समाप्त होता है
(B) लेखांकन समाप्त होता है
(C) अनुसंधान समाप्त होता है
(D) इनमें से कोई नहीं
29. अंकेक्षक द्वारा त्रुटियों व कपटों को-
- (A) रोका जा सकता है
(B) रोका नहीं जा सकता है
(C) रोका जा सकता है, यदि व्यवसाय का कर्मचारी एवं स्वामी चाहें
(D) उपरोक्त सभी
30. नये साझेदार के प्रवेश के समय जो अंकेक्षण कराया जाता है, उसे कहते हैं-
- (A) आकस्मिक अंकेक्षण
(B) प्रमाप अंकेक्षण
(C) आंशिक अंकेक्षण
(D) इनमें से कोई नहीं
31. अंकेक्षण से तात्पर्य है-
- (A) खाता तैयार करना और उसकी जाँच करना
(B) केवल व्यावसायिक इकाइयों के खातों की जाँच
(C) पेशेवर लेखाकारों के खातों की जाँच
(D) प्रमाणकों की जाँच करना

32. Main object of auditing is-
- (A) Detection of errors
 (B) To find out whether P&L A/C and B/S show true and fair state affairs
 (C) Detection of frauds
 (D) Detection and prevention of frauds and errors
33. Internal check is a part of-
- (A) Internal audit
 (B) Internal accounting
 (C) External audit
 (D) Internal control
34. Object of verification of assets is-
- (A) Physical verification of assets
 (B) Checking value of assets
 (C) Examining the authority of their acquisition
 (D) All of the above
35. Valuation of fixed assets is based on the concept of-
- (A) Going concern
 (B) Conservation
 (C) Money measurement
 (D) Dual aspect
32. अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है-
- (A) त्रुटियों का पता लगाना
 (B) यह पता लगाना कि क्या लाभ-हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा सही और निष्पक्ष स्थिति विवरण दिखाते हैं
 (C) धोखाधड़ी का पता लगाना
 (D) धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना और रोकथाम करना
33. आन्तरिक जाँच का एक भाग है-
- (A) आन्तरिक अंकेक्षण
 (B) आन्तरिक लेखांकन
 (C) बाह्य लेखापरीक्षा (अंकेक्षण)
 (D) आन्तरिक नियन्त्रण
34. सम्पत्तियों के सत्यापन का उद्देश्य है-
- (A) सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन
 (B) सम्पत्तियों के मूल्य की जाँच करना
 (C) उनके अधिग्रहण के अधिकार की जाँच करना
 (D) उपरोक्त सभी
35. अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन किस अवधारणा पर आधारित है-
- (A) गोइंग-कंसर्न
 (B) कन्जरवेशन
 (C) मनी मेजरमेण्ट
 (D) ड्यूल आस्पेक्ट

36. First auditor of a company is appointed by the-
- (A) Shareholders
(B) Central Government
(C) Company Law Board
(D) Board of Directors
37. A special auditor is appointed by the-
- (A) Shareholders
(B) Board of Directors
(C) Central Government
(D) CAG
38. Management audit is-
- (A) Compulsory
(B) Not compulsory
(C) Compulsory under Income Tax Act
(D) Compulsory under Indian contract act
39. Accounting standards are prepared by-
- (A) SEBI
(B) RBI
(C) ICAI
(D) ITA
36. किसी कम्पनी का पहला अंकेक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है-
- (A) अंशधारक
(B) केन्द्र सरकार
(C) कम्पनी लॉ बोर्ड
(D) निदेशक मंडल
37. एक विशेष अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है-
- (A) अंशधारक द्वारा
(B) निदेशक मण्डल द्वारा
(C) केन्द्र सरकार द्वारा
(D) सीएजी द्वारा
38. प्रबन्ध अंकेक्षण है-
- (A) अनिवार्य
(B) अनिवार्य नहीं
(C) आयकर अधिनियम के तहत अनिवार्य
(D) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य
39. लेखांकन मानक किसके द्वारा तैयार किये जाते हैं-
- (A) सेबी
(B) आरबीआई
(C) आईसीएआई
(D) आईटीए

40. Which among the following is not a function of the auditor-
- (A) Checking errors and frauds
 (B) Correcting errors and frauds
 (C) Vouching with original documents
 (D) Preparing final accounts
41. Errors and fraud already committed can be discovered under the system of-
- (A) Internal audit, internal check and internal control
 (B) External check
 (C) Statutory audit
 (D) Interim audit
42. Audit at the end of the year is known as-
- (A) Periodical audit
 (B) Standard audit
 (C) Efficiency audit
 (D) Operational audit
43. Government audit conducted by the department maintained by government of India, is known as-
- (A) Cost and Audit Department
 (B) Accounts and Audit Department
 (C) Tax and Audit Department
 (D) GST and Audit Department
40. निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षक का कार्य नहीं है-
- (A) त्रुटियों और धोखाधड़ी की जाँच करना
 (B) त्रुटियों और धोखाधड़ी को सुधारना
 (C) मूल अभिलेखों के साथ प्रमाणन
 (D) अन्तिम खातें तैयार करना
41. पहले से की गयी त्रुटियों और धोखाधड़ी को इस प्रणाली के तहत खोजा जा सकता है-
- (A) आंतरिक अंकेक्षण, आन्तरिक जाँच एवं आन्तरिक नियन्त्रण
 (B) बाह्य जाँच
 (C) वैधानिक अंकेक्षण
 (D) अन्तरिम अंकेक्षण
42. वर्ष के अन्त में अंकेक्षण को कहा जाता है-
- (A) आवधिक अंकेक्षण
 (B) मानक अंकेक्षण
 (C) दक्षता अंकेक्षण
 (D) परिचालन अंकेक्षण
43. सरकारी लेखा परीक्षा भारत सरकार द्वारा संचालित विभाग द्वारा की जाती है, इसे कहा जाता है-
- (A) लागत और लेखा परीक्षा विभाग
 (B) लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
 (C) कर एवं लेखा परीक्षा विभाग
 (D) जीएसटी एवं लेखा परीक्षा विभाग

44. Accounts and audit department is headed by-
- (A) Ministry of Finance
(B) Home Minister
(C) Comptroller and Auditor general of India
(D) Prime Minister
45. The word auditing is derived from the Latin word-
- (A) Autire
(B) Audire
(C) Aukire
(D) Aufire
46. Audit conducted between two annual audits is known as-
- (A) Efficiency audit
(B) Internal audit
(C) Interim audit
(D) Special audit
47. Test checking should not be applied to-
- (A) Purchase book
(B) Sales book
(C) Stock book
(D) Cash book
44. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का प्रमुख होता है-
- (A) वित्त मंत्रालय
(B) गृहमंत्री
(C) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(D) प्रधानमंत्री
45. ऑडिटिंग शब्द निम्नलिखित लैटिन शब्द से लिया गया है-
- (A) ऑटायर
(B) ऑडायर
(C) औकिरे
(D) औफायर
46. दो वार्षिक लेखा परीक्षाओं के बीच की गयी लेखा परीक्षा को इस रूप में जाना जाता है-
- (A) दक्षता अंकेक्षण
(B) आन्तरिक अंकेक्षण
(C) अन्तरिम अंकेक्षण
(D) विशेष अंकेक्षण
47. परीक्षण जाँच को लागू नहीं किया जाना चाहिए _____ पर।
- (A) क्रय पुस्तक
(B) बिक्री पुस्तक
(C) स्टॉक बुक
(D) रोकड़ बही

48. Right of appointment and removal of internal auditor lies with.
- (A) Management
(B) Shareholders
(C) Government
(D) CAG
49. Statutory liabilities of an auditor include-
- (A) Liability under companies Act 2013
(B) Liability under the Indian Penal Code
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
50. A company auditor can be removed by-
- (A) Board of Directors
(B) Managing Director
(C) Any Director
(D) General Meeting
48. आन्तरिक लेखा परीक्षक को नियुक्त करने एवं हटाने का अधिकार _____ के पास होता है।
- (A) प्रबन्धन
(B) अंशधारक
(C) सरकार
(D) सीएजी (CAG)
49. एक अंकेक्षक की वैधानिक दायित्वों में शामिल है-
- (A) कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत दायित्व
(B) भारतीय दण्ड संहिता के तहत दायित्व
(C) (A) और (B) दोनों
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
50. एक कम्पनी के अंकेक्षक को हटाया जा सकता है-
- (A) निदेशक मण्डल द्वारा
(B) प्रबन्ध निदेशक द्वारा
(C) किसी भी निदेशक द्वारा
(D) आम बैठक द्वारा
